



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2003/माघ 2, 1924

No. 54]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2003/MAGHA 2, 1924

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

का.आ. 60(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित संस्थाओं का एतद्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः—

सारणी

क्रम सं.	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के लिए अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1	2	3	4
1.	शिव शक्ति सत्य साईं चैरिटेबल ट्रस्ट, सं. 3, पोन्नाम्मन कोइल स्ट्रीट, अलापक्कम, 600116	शिव शक्ति सत्य साईं चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कार्पस फंड।	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 8.00 करोड़ रु. (कार्पस फंड)।
2.	श्री सिमन्धर स्वामी आराधना ट्रस्ट, 5, ममता पार्क सोसायटी नवगुजरात कालेज के पीछे उस्मानपुरा, अहमदाबाद-380014	गुरुकुल अथवा ज्ञान मंदिर और हेल्थ केयर क्लिनिक का निर्माण अथवा विस्तार अथवा उसे चलाना।	निर्धारण वर्षों 2003-2004, और 2004-2005 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 228.54 लाख रु.।

3.	भारत स्वमुक्ति समस्ता, बी-81, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजाजी नगर, बंगलौर-560044	“ बी एस एस माइक्रोलोन एंड सेविंग्स प्रोजेक्ट “	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 124.00 लाख रुपए
4.	भद्रजन आर्टिजन ट्रस्ट, एन-19, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017	विस्तारित भवन का निर्माण तथा विद्यालय चलाना ।	निर्धारण वर्ष 2003-2004 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 6.00 लाख रुपए
5.	ग्रामीण विकास केन्द्र (आर डी सी), ग्रेस भवन, मोतबंग, मणिपुर-795107	एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 176.04 लाख रुपए
6.	भंसाली ट्रस्ट, 640-646, पंचतंत्र मामा परमानंद मार्ग, मुंबई-400004	एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना	निर्धारण वर्ष 2003-2004 , 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 127.5 लाख रुपए
7.	पीपल फॉर एनीमल्स, 14, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001	पशु अस्पतालों अथवा शरणस्थलों का रख-रखाव, दवाइयों, चारे तथा एंबुलेंस गाड़ियों की खरीद तथा पशुओं के संबंध में जागृति कार्यक्रम तथा परियोजना को चलाना	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 490.00 लाख रुपये

2. यह अधिसूचना कथित सारणी की क्रम सं० 2 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीम के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 की दो वर्ष की अवधि के लिए तथा निर्धारण वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 और 2005-2006 की तीन वर्षों की अवधि के लिए क्रम सं० 1,3,4,5,6, और 7 उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 16-2003/फा. सं. एन.सी.-142/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2003

S.O. 60(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee, hereby approves the institutions mentioned in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC, namely:-

T A B L E

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Siva Sakhti Sathya Sai Charitable Trust, No.3, Ponniyamman Koi Sreet, Alapakkam, Chennai-600116.	Corpus fund for Siva Sakhti Sathya Sai Charitable Trust.	Rs.8.00 Crores (corpus fund) for Assessment Years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e. for three years only.
2.	Sri Simandhar Swami Aradhana Trust, 5, Mamta Park Society, Behind Navgujarat College, Usmanpura, Ahmedabad-380014.	Construction or expansion and running of Gurukul or Gyan Mandir and Health Care Clinic	Rs.228.54 lakhs for Assessment Years 2003-2004 and 2004-2005 i.e. for two years only.
3.	Bharatha Swamukti Samstha, B-81, Industrial Estate, Rajaji Nagar, Bahgalore-560044.	"BSS MICROLOAN AND SAVINGS PROJECT"	Rs.124.00 lakhs for Assessment Years 2003-2004, 2004 - 2005 and 2005-2006 i.e. for three years only.

4.	Bhadrajun Artisan Trust, N-19, Panchsheel Park, New Delhi-110017.	Construction of extension building and running of School	Rs.6.00 lakhs for Assessment Years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e. for three years only.
5.	Rural Development Centre (RDC), Grace Bhavan, Mothung, Manipur-795107.	Integrated Tribal Development Project.	Rs.176.04 lakhs for Assessment Years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e. for three years only.
6.	Bhansali Trust, 640-646, Panchratra Mama Parmanand Marg, Mumbai-400004.	Integrated Rural Development Project.	Rs.1275.00 lakhs for Assessment Years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e. for three years only.
7.	People for Animals, 14, Ashoka Road, New Delhi-110001.	Maintenance of animal hospitals or shelters, purchase of medicine, feed, ambulances and running of animal awareness programme and the project.	Rs.490.00 lakhs for Assessment Years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e. for three years only.

2. This notification shall remain in force for a period of two years in relation to assessment years 2003-2004 and 2004-2005 in respect of project or scheme mentioned at serial number 2 and for a period of three years in relation to assessment years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 in respect of projects or schemes mentioned at serial number 1,3,4,5,6 and 7 of the said Table.

[No. 16-2003/F.No. NC-142/2002]

G.C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

का.आ. 61(अ)— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 698(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने माता लक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी स्टेशन रोड, आदिपुर, कच्छ 370205 गुजरात द्वारा , आदिपुर कच्छ गुजरात में बधिर बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण/पुनर्वास के लिए भवन निर्माण, उपस्करों की खरीद तथा स्कूल चलाने की परियोजना या

स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 17(अ०) द्वारा संशोधित किया गया था और फिर दिनांक फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 121(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था जिसे बाद में फिर दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 913(अ०) द्वारा संशोधित किया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के उसकी पूरी अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना परियोजना लागत (कार्पस निधि) को 15.00 लाख रुपये से 24.28 लाख रुपये और आगे संशोधित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) माता लक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी स्टेशन रोड, आदिपुर, कच्छ 370205 गुजरात द्वारा, आदिपुर कच्छ गुजरात में बधिर बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण/पुनर्वास के लिए भवन निर्माण, उपकरणों की खरीद तथा स्कूल चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है, तथा

(ख) दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 698(अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 2 के सामने कालम(4) में जो लागत की अधिकतम राशि से संबंधित धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है इसमें शब्द, अंक तथा अक्षर "15.00 लाख रुपये की कार्पस निधि" के स्थान पर अक्षर, अंक तथा शब्द " 24.28 लाख रुपये की कार्पस निधि" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 17-2003/फा. सं. एन.सी.-142/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2003

S.O. 61(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 698(E) dated the 3rd October, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Construction of building, purchase of equipments and running of school for vocational training/rehabilitation of hearing handicapped children at Adipur, Kutch, Gujarat by Mata Lachmi Rotary Charitable Society, Station Road, Adipur, Kutch-370205 Gujarat as an eligible project or scheme for a

period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was amended further vide notification number S.O.17(E) dated 4th January, 2000, which was extended further vide Notification No. S.O.121(E) dated 11th February, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was amended further vide Notification No.S.O.913(E) dated 20th September, 2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas, the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for further amending the project cost (corpus fund) from Rs.15.00 lakhs to Rs.24.28 lakhs without overall change in the approved cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Construction of building, purchase of equipments and running of school for vocational training/rehabilitation of hearing handicapped children at Adipur, Kutch, Gujarat which is being carried out by Mata Lachmi Rotary Charitable Society, Station Road, Adipur, Kutch-370205 Gujarat; and
- (b) further amends the said notification number S.O.698(E) dated the 3rd October, 1997, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the words, letters and figures "corpus fund of Rs.15.00 lakhs" the words, 'letters and figures "corpus fund of Rs.24.28 lakhs" shall be substituted.

[No. 17-2003/F.No. NC-142/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

का.आ. 62(अ) — जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० सा० आ० 54(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्टारलाइट फाउन्डेशन, 113, समुद्र महल, एनीबेसेन्ट रोड-वर्ली, मुम्बई द्वारा 45 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों और सिलाई कक्षाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने तथा इनको चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 14 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई

2000 की अधिसूचना सं० सां०आ० 635(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था :

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है:

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए 1063.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 1201.60 लाख रुपए की अनुमानित लागत को संशोधित करके 1063.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2193.62 लाख रुपए करने तथा 45 केन्द्रों के स्थान पर 386 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की और सिफारिश की है :

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ।

(क) स्टारलाईट फाउण्डेशन, 113, समुद्र महल, एनीवेसेन्ट रोड वर्ली, मुम्बई द्वारा चलाई जा रही 45 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों और सिलाई कक्षाओं हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने तथा उनको चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है, तथा

(ख) दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० सां०आ० 54(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः

अधिसूचना की साखणी में क्रम सं० 14 के सामने (i) परियोजना अथवा स्कीम और अनुमानित लागत से संबंधित कालम (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः

“ 1063.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2193.62 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 386 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों तथा सिलाई कक्षाओं हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा इनको चलाना । ”

(ii) कालम (14) में लाग की अधिकतम राशि जो धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है इसमें विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः

“ 1063.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2193.62 लाख रुपए । ”

[सं. 18-2003/फा. सं. एन.सी.-142/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2003

S.O. 62(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.54(E) dated the 16th January, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 14, for Setting up and running of vocational training centres for computer courses and tailoring classes at 45 centres by Sterlite Foundation, 113, Samudra Mahal, Annie Basant Road-Worli, Mumbai as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.635(E) dated 5th July, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas, the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for further amending the approved cost from Rs.1201.60 lakhs including a corpus fund of Rs.1063.00 lakhs to Rs.2193.62 lakhs including a corpus fund of Rs.1063.00 lakhs and setting up of 386 vocational training centres against 45 centres;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project for Setting up and running of vocational training centres for computer courses and tailoring classes at 45 centres which is being carried out by Sterlite Foundation, 113, Samudra Mahal, Annie Basant Road-Worli, Mumbai; and
- (b) further amends the said notification number S.O.54(E) dated the 16th January 1998, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 14,

- (i) in column (3) relating to the project or scheme and estimated cost thereof, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :- "Setting up and running of vocational training centres for computer courses and tailoring classes at 386 centres at the estimated cost of Rs.2193.62 lakhs including a corpus fund of Rs.1063.00 lakhs";
- (ii) in column (14) relating to the maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :-

"Rs.2193.62 lakhs plus a corpus fund of Rs.1063.00 lakhs".

[No. 18-2003/F.No. NC-142/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

का.आ. 63(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 180(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री सारधव ग्राम विकास मंडल, रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल, डाकघर सारधव, जिला गांधीनगर, गुजरात 382640 द्वारा ग्राम सारधव जिला गांधीनगर नार्थ गुजरात में रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल के चिकित्सकों के आवास, फिजियोथेरेपी सेन्टर के निर्माण, उपस्कर तथा उसके रखरखाव की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 100(अ०)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में पुनः 26 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1175(अ०)द्वारा संशोधित किया गया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है:

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सारधव ग्राम विकास मंडल, रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल, डाकघर सारधव, जिला गांधीनगर, गुजरात 382640 द्वारा ग्राम सारधव जिला गांधीनगर नार्थ गुजरात में रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल के चिकित्सकों के आवास, फिजियोथेरेपी सेन्टर के निर्माण, उपस्कर तथा उसके रखरखाव की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र चौवालीस लाख, छिहत्तर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 19-2003/फा. सं. एन.सी.-142/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2003

S.O. 63(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.180(E) dated the 10th March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for Construction of Doctors' Quarters, Physiotherapy Centre, equipments and maintenance of Revabai General Hospital at Village Sardhav, District Gandhinagar, North Gujarat by Shree Sardhav Gram Vikas Mandal, c/o Revabai General Hospital, P.O. Sardhav, District Gandhinagar, Gujarat-382640, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.100(E) dated 11th February, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 which was further amended vide notification No.1175(E) dated 26th November, 1999;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of Doctors' Quarters, Physiotherapy Centre, equipments and maintenance of Revabai General Hospital at Village Sardhav, District Gandhinagar, North Gujarat which is being carried out by Shree Sardhav Gram Vikas Mandal, c/o Revabai General Hospital, P.O. Sardhav, Distt. Gandhinagar, Gujarat-382640, at the estimated cost of rupees forty four lakhs seventy six thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2003-2004.

[No. 19-2003/F.No. NC-142/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

का.आ. 68(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 469(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, पो०आ० राजगंगापुर-770017, उड़ीसा द्वारा उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के 30 गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 917(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 26 मई, 2000, की अधिसूचना सं० सां० आ० 502(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सात वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुमोदित लागत को 10.00 लाख रुपये से संशोधित करके 17.00 लाख रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, पो०आ० राजगंगापुर-770017, उड़ीसा द्वारा उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के 30 गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है, तथा

(ख) दिनांक 2 जुलाई 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 469(अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 2 के सामने कालम (4) में लागत की अधिकतम राशि जो धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है, इसमें अक्षर, अंक, तथा शब्द “ 10.00 लाख रुपये” के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द “ 17.00 लाख रुपये” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 20-2003/फा. सं. एन.सी.-142/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2003

S.O. 64(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12, for Primary Health Project at 30 Villages of Sundergarh District of Orissa by Dalmia Bharat Seva Trust, P.O.Rajgangapur-770017, Orissa as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.917(E) dated 29th December, 1997 for a period of two years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification S.O.502(E) dated 26th May, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond seven years;

And whereas, the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for further amending the approved cost from Rs.10.00 lakhs to Rs.17.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Primary Health Project at 30 Villages of Sundergarh District of Orissa by Dalmia Bharat Seva Trust, P.O.Rajgangapur-770017, Orissa; and
- (b) further amends the said notification number S.O.469(E) dated the 2nd July 1996, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 12, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and word "Rs. 10.00 lakhs to Rs.17.00 lakhs" shall be substituted.

[No. 20-2003/F.No. NC-142/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

का.आ. 65(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 901(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मदर कृष्णाबाई रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, रामनगर, आनंदआश्रम पो०आ० कान्हागढ़ 671531, केरल द्वारा कसारगोड जिला केरल में और देश के अन्य भागों में बेघरबारों के लिए आश्रय, कुएं, प्रयोगशाला का निर्माण और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में लगी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए परियोजना लागत को 55.00 लाख रुपए से संशोधित करके 130.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) मदर कृष्णाबाई रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, रामनगर, आनंदआश्रम पो०आ० कान्हागढ़ 671531, केरल द्वारा कसारगोड जिला केरल में और देश के अन्य भागों में बेघरबारों के लिए आश्रय, कुएं, प्रयोगशाला का निर्माण और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में लगी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है, तथा

(ख) दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 901(अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 5 के सामने कालम(4) में धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटीती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली राशि जो अधिकतम लागत से संबंधित है, इसमें अक्षर, अंक, तथा शब्द “ 55 लाख रुपए” के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द “ 130.00 लाख रुपए” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 21-2003/फा. सं. एन.सी.-142/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2003

S.O. 65(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.901(E) dated the 20th September, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, for Construction of shelter for the homeless, wells, laboratory and assistance to other institutions for welfare activities at Kasargod District Kerala and other parts of the country by Mother Krishnabai Rural Development Trust, Ramnagar, Anandashram P.O., Kanhangad-671531, Kerala as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas, the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for further amending the approved cost from Rs.55.00 lakhs to Rs.130.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Construction of shelter for the homeless, wells, laboratory and assistance to other institutions for welfare activities at Kasargod District Kerala and other parts of the country by Mother Krishnabai Rural Development Trust, Ramnagar, Anandashram P.O., Kanhangad-671531, Kerala; and
- (b) further amends the said notification number S.O.901(E) dated the 20th September 2001, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 5, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and word "Rs. 55.00 lakhs to Rs.130.00 lakhs" shall be substituted.

[No. 21-2003/F.No. NC-142/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

का.आ. 66(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 739(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, सवाई मान सिंह अस्पताल कैम्पस, जयपुर 302004, राजस्थान द्वारा जयपुर, राजस्थान में विकलांगों, पोलियो से ग्रस्त अपंग व्यक्तियों, बधिरों के लिए कृत्रिम अंगों का प्रावधान करने तथा अन्य पुनर्वास सहायता देने, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को दवाइयां तथा विशेष जूते देने, स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देने तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(6) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, सवाई मान सिंह अस्पताल कैम्पस, जयपुर-302004, राजस्थान द्वारा जयपुर, राजस्थान में विकलांगों, पोलियो से ग्रस्त अपंग व्यक्तियों, बधिरों के लिए कृत्रिम अंगों का प्रावधान करने तथा अन्य पुनर्वास सहायता देने, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को दवाइयां तथा विशेष जूते देने, स्व-रोजगार के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देने तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीन करोड़ पचास लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 22-2003/फा. सं. एन.सी.-142/2002] •

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2003

S.O. 66(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 739(E) dated the 10th September, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Provision of artificial limbs and other rehabilitation aids to amputees, polio affected disabled persons, hard of hearing, medicines and special shoes to persons suffering from leprosy, various types of financial aids and other support for self-employment and rehabilitation of handicapped persons at Jaipur, Rajasthan by Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Sawai Man Singh Hospital Camps, Jaipur-302004, Rajasthan, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Provision of artificial limbs and other rehabilitation aids to amputees, polio affected disabled persons, hard of hearing, medicines and special shoes to persons suffering from leprosy, various types of financial aids and other support for self-employment and rehabilitation of handicapped persons at Jaipur, Rajasthan by Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Sawai Man Singh Hospital Camps, Jaipur-302004, Rajasthan, at the estimated cost of rupees three crores fifty lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2003-2004.

[No. 22-2003/F.No. NC-142/2002]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (National Committee)